



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 10 दिसम्बर, 2020
अग्रहायण 19, 1942 शक सम्बत्

कार्यालय निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश

संख्या 4/896-2020-4-83(गौतमबुद्धनगर)-2014
लखनऊ, 10 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-408

उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 2334/तैंतीस-1-94-149/94, दिनांक 9 मई, 1994 द्वारा संयुक्त प्रान्त पंचायतराज अधिनियम, 1947 की धारा 3 और 11(च) के अधीन राज्य सरकार द्वारा निदेशक, पंचायतीराज, उ० प्र० को प्रतिनिहित शक्ति एवं ग्राम्य विकास विभाग के शासनादेश संख्या 1207/38-3-2000-34बी-2000, दिनांक 15 मार्च, 2000 द्वारा उ० प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अधीन राज्य सरकार द्वारा निदेशक, पंचायतीराज, उ० प्र० को प्रतिनिहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, किंजल सिंह, निदेशक, पंचायतीराज, उ० प्र०, लखनऊ, पंचायतीराज अनुभाग-3, उ० प्र० शासन के शासनादेश संख्या 1992/33-3-2014-03रा०नि०आ०-2014, दिनांक 16 अगस्त, 2014 एवं शासनादेश संख्या 2578/33-3-2014-03रा०नि०आ०-2014, दिनांक 6 नवम्बर, 2020 में दी गई व्यवस्थानुसार जनपद गौतम बुद्ध नगर की विकास खण्डवार ग्राम पंचायतों की निर्गत अधिसूचना संख्या 4/497/2018-4/83 (गौतम बुद्ध नगर)-2014, दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 में विकास खण्ड जेवर, दनकौर, दादरी एवं बिसरख की ग्राम पंचायतों के सम्बन्ध में पूर्व स्थिति में उल्लिखित प्रविष्टियों के स्थान पर संशोधित स्थिति में विकास खण्ड जेवर, दनकौर, दादरी एवं बिसरख में उल्लिखित प्रविष्टियाँ एतद्वारा स्थापित करती हूँ।

सारिणी

जनपद-गौतमबुद्ध नगर

क्र० सं०	पूर्व स्थिति				क्र० सं०	संशोधित स्थिति		
	विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	न्याय पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम (न्याय पंचायत वार)	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम		विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम
1	2	3	4	5	1	2	3	4
1	जेवर	शमशमनगर	भगवंतपुर छौतगा	1.भगवंतपुर छौतगा	1	जेवर	भगवंतपुर छौतगा	1.भगवंतपुर छौतगा
2	जेवर		शमशमनगर	1.शमशमनगर	2	जेवर	शमशमनगर	1.शमशमनगर
3	जेवर		अलाउददीनपुर उर्फ दुढेरा	1.अलाउददीनपुर उर्फ दुढेरा	3	जेवर	अलाउददीनपुर उर्फ दुढेरा	1.अलाउददीनपुर उर्फ दुढेरा
4	जेवर		जेवर खादर	1.जेवर खादर	4	जेवर	जेवर खादर	1.जेवर खादर
5	जेवर		गोविन्दगढ	1.गोविन्दगढ	5	जेवर	गोविन्दगढ	1.गोविन्दगढ
6	जेवर		झुप्पा	1.झुप्पा 2.छातंगा खुर्द	6	जेवर	झुप्पा	1.झुप्पा 2.छातंगा खुर्द
7	जेवर		कानीगढी	1.कानीगढी	7	जेवर	कानीगढी	1.कानीगढी
8	जेवर		मेवला गोपालगढ	1.मेवला गोपालगढ	8	जेवर	मेवला गोपालगढ	1.मेवला गोपालगढ
9	जेवर		अलियाबाद उर्फ महेन्दीपुर	1.अलियाबाद उर्फ महेन्दीपुर	9	जेवर	अलियाबाद उर्फ महेन्दीपुर	1.अलियाबाद उर्फ महेन्दीपुर
10	जेवर		रामपुर बांगर	1.रामपुर बांगर 2.रामपुर खादर (गैर आबाद) 3.अनवरगढ (गैर आबाद) 4.तकीपुरखादर (गैर आबाद) 5.करौली खादर (गैर आबाद)	10	जेवर	रामपुर बांगर	1.रामपुर बांगर 2.रामपुर खादर (गैर आबाद) 3.अनवरगढ (गैर आबाद) 4.तकीपुरखादर (गैर आबाद) 5.करौली खादर (गैर आबाद)
11	जेवर		सिरसा	1.सिरसा 2.माचीपुर बांगर 3.माचीपुर	11	जेवर	सिरसा	1.सिरसा 2.माचीपुर बांगर 3.माचीपुर
12	जेवर		बल्लबनगर उर्फ करौल बांगर	1.बल्लबनगर उर्फ करौल बांगर 2.बल्लबनगर उर्फ करौल खादर (गैर आबाद)	12	जेवर	बल्लबनगर उर्फ करौल बांगर	1.बल्लबनगर उर्फ करौल बांगर 2.बल्लबनगर उर्फ करौल खादर (गैर आबाद)
13	जेवर	नीमका	माडलपुर	1.माडलपुर 2. अलावलपुर	13	जेवर	माडलपुर	1.माडलपुर 2. अलावलपुर
14	जेवर		मंगरौली	1.मंगरौली	14	जेवर	मंगरौली	1.मंगरौली
15	जेवर	थौरा	लौदोना	1.लौदोना	15	जेवर	लौदोना	1.लौदोना
16	जेवर		भवोकरा	1.भवोकरा 2.हुमायूपुर	16	जेवर	भवोकरा	1.भवोकरा 2.हुमायूपुर
17	जेवर		मोहबलीपुर	1.मोहबलीपुर	17	जेवर	मोहबलीपुर	1.मोहबलीपुर
18	जेवर		अली अहमदपुर उर्फ गढी	1.अली अहमदपुर उर्फ गढी 2.मिलक करीमाबाद	18	जेवर	अली अहमदपुर उर्फ गढी	1.अली अहमदपुर उर्फ गढी 2.मिलक करीमाबाद
19	जेवर		चौचली	1.चौचली	19	जेवर	चौचली	1.चौचली
20	जेवर		जहाँगीरपुर देहात	1.जहाँगीरपुर देहात	20	जेवर	जहाँगीरपुर देहात	1.जहाँगीरपुर देहात

21	जेवर	रौनीजा	महेंदीपुर खादर	1.महेंदीपुर खादर 2.फलैदा खादर (गैर आबाद)	21	जेवर	महेंदीपुर खादर	1.महेंदीपुर खादर 2.फलैदा खादर (गैर आबाद)	
22	जेवर	जौन चाना	मारहरा	1.मारहरा 2.इस्माईलपुर उर्फ भौयरा	22	जेवर	मारहरा	1.मारहरा 2.इस्माईलपुर उर्फ भौयरा	
					23	जेवर	बांजरपुर	1.बांजरपुर 2. सरकपुर	
					24	जेवर	चूहडपुर बांगर	1.चूहडपुर बांगर	
					25	जेवर	चीती	1.चीती 2.नंगला	
					26	जेवर	मकनपुर खादर	1.मकनपुर खादर	
					27	जेवर	चचूरा	1.चचूरा 2.चांगौली	
					28	जेवर	जमालपुर	1. जमालपुर	
					29	जेवर	राजुपर कंला	1.राजुपर कंला	
					30	जेवर	शाहपुर खुर्द	1.शाहपुर खुर्द 2.फजायलपुर 3.चन्द्रवल	
					31	जेवर	दौला रजपुरा	1.दौला रजपुरा	
					32	जेवर	मण्डपा	1.मण्डपा	
					33	जेवर	सालेपुर	1.सालेपुर	
					34	जेवर	दलेलपुर	1.दलेलपुर 2.जगनपुर दोआब 3.बैला खुर्द	
23	दनकौर	धनौरी	बांजरपुर	1.बांजरपुर 2.सरकपुर				क्रमांक 23 से 34 तक पूर्व स्थिति में उल्लिखित ग्राम पंचायतें/राजस्व ग्राम पूर्णरूप से ग्राम्य विकास विभाग अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 40/2020/सा0-237/38-2-2020-41 बी-2012-टी0सी0, लखनऊ दिनांक 6 नवम्बर, 2020 के द्वारा विकास खण्ड जेवर में सम्मिलित कर दी गयी हैं।	
24	दनकौर		चूहडपुर बांगर	1.चूहडपुर बांगर					
25	दनकौर	चीती	चीती	1.चीती 2.नंगला					
26	दनकौर	दनकौर देहात	मकनपुर खादर	1.मकनपुर खादर					
27	दनकौर	झांझर आंशिक	चचूरा	1.चचूरा 2.चांगौली					
28	दनकौर		जमालपुर	1. जमालपुर					
29	दनकौर		राजुपर कंला	1.राजुपर कंला					
30	दनकौर		शाहपुर खुर्द	1.शाहपुर खुर्द 2.फजायलपुर 3.चन्द्रवल					
31	दनकौर		दौला रजपुरा	1.दौला रजपुरा					
32	दनकौर		मण्डपा	1.मण्डपा					
33	दनकौर		सालेपुर	1.सालेपुर					
34	दनकौर	सलेमपुर गुर्जर	1. दलेलपुर	1.दलेलपुर 2.जगनपुर दोआब 3.बैला खुर्द					
35	दादरी	घोड़ी बछेड़ा	कटैहरा	1.कटैहरा	35	दादरी	कटैहरा		1.कटैहरा
36	दादरी	खटाना	खटाना धीरखेड़ा	1.खटाना धीरखेड़ा	36	दादरी	खटाना धीरखेड़ा		1.खटाना धीरखेड़ा
37	दादरी		पटादी	1.पटादी				क्रमांक-37 पर पूर्व स्थिति में उल्लिखित ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम पूर्ण रूप से ग्राम्य विकास विभाग अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 40/2020/सा0-237/38-2-2020-41बी-2012-टी0सी0 लखनऊ, दिनांक 6 नवम्बर, 2020 के	

							द्वारा विकास खण्ड बिसरख में सम्मिलित कर दी गयी हैं।
38	दादरी		गुलावठी खुर्द	1.गुलावठी खुर्द 2.औरंगबाद (गैर आबाद)	37	दादरी	गुलावठी खुर्द 1.गुलावठी खुर्द 2.औरंगबाद (गैर आबाद)
39	दादरी		मुठियानी	1.मुठियानी	38	दादरी	मुठियानी 1. मुठियानी
40	दादरी		उपरालसी	1.उपरालसी	39	दादरी	उपरालसी 1.उपरालसी
41	दादरी		धनुवास	1.धनुवास	40	दादरी	धनुवास 1.धनुवास
42	दादरी		सलारपुर कला	1.सलारपुर कला			क्रमांक-42 पर पूर्व स्थिति में उल्लिखित ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम पूर्ण रूप से ग्राम्य विकास विभाग अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 40/2020/सा0-237/38-2-2020-41बी-2012-टी0सी0 लखनऊ, दिनांक 6 नवम्बर, 2020 के द्वारा विकास खण्ड बिसरख में सम्मिलित कर दी गयी है।
43	दादरी		दादूपुर खटाना	1.दादूपुर खटाना	41	दादरी	दादूपुर खटाना 1.दादूपुर खटाना
44	दादरी		रसूलपुर डासना	1.रसूलपुर डासना			क्रमांक-44 से 56 तक पूर्व स्थिति में उल्लिखित ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम पूर्ण रूप से ग्राम्य विकास विभाग अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 40/2020/सा0-237/38-2-2020-41बी-2012-टी0सी0 लखनऊ, दिनांक 6 नवम्बर, 2020 के द्वारा विकास खण्ड बिसरख में सम्मिलित कर दी गयी है।
45	दादरी	ऊँचा अमीरपुर	ऊँचा अमीरपुर	1.ऊँचा अमीरपुर			
46	दादरी		ततारपुर	1.ततारपुर			
47	दादरी		सीदीपुर	1.सीदीपुर			
48	दादरी		खगौडा	1.खगौडा			
49	दादरी		शादीपुर चौना	1.सीदीपुर चौना 2.चक सीदीपुर (गैर आबाद)			
50	दादरी	बम्बावड़	बम्बावड़	1.बम्बावड़			
51	दादरी		महावड़	1.महावड़			
52	दादरी		इस्लामाबाद कल्दा	1.इस्लामाबाद कल्दा			
53	दादरी		आकलपुर जागीर	1.आकलपुर जागीर			
54	दादरी		कूडी खेडा	1.कूडी खेडा			
55	दादरी		शादीपुर छिडौली	1.शादीपुर छिडौली			
56	दादरी	बिसाहडा	बिसाहडा	1.बिसाहडा 2.इरादत उर्फ राजतपुर 3.तामोलीपुर (गैर आबाद) 4.नंगला किरानी (गैर आबाद) 5.दादरी देहात			
57	दादरी		बढपुरा	1.बढपुरा	42	दादरी	बढपुरा 1.बढपुरा
58	दादरी		प्यावली ताजपुर	1.प्यावली ताजपुर			क्रमांक-58 से 59 तक पूर्व स्थिति में उल्लिखित ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम पूर्ण रूप से ग्राम्य विकास विभाग अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 40/2020/सा0-237/38-2-2020-41 बी-2012-टी0सी0 लखनऊ, दिनांक 6 नवम्बर, 2020 के द्वारा विकास खण्ड बिसरख में सम्मिलित कर दी गयी है।
59	दादरी		जैतवारपुर	1.जैतवारपुर			

60	दादरी	रिठौरी	समाउद्दीनपुर	1.समाउद्दीनपुर 2.बसंतपुर बांगर	43	दादरी	समाउद्दीनपुर	1.समाउद्दीनपुर 2.बसंतपुर बांगर
61	दादरी		कैमराला चक्रसैनपुर	1.कैमराला चक्रसैनपुर	44	दादरी	कैमराला चक्रसैनपुर	1.कैमराला चक्रसैनपुर
62	दादरी		भोगपुर	1.भोगपुर	45	दादरी	भोगपुर	1.भोगपुर
63	दादरी		रामगढ चमरावली	1.रामगढ चमरावली	46	दादरी	रामगढ चमरावली	1.रामगढ चमरावली
64	दादरी	चितहेरा	चितहेरा	1.चितहेरा	47	दादरी	चितहेरा	1.चितहेरा
65	दादरी		दतावली	1.दतावली	48	दादरी	दतावली	1.दतावली
66	दादरी		रानौली लतीफपुर	1.रानौली लतीफपुर 2.गोरखपुर (गैर आबाद)			क्रमांक-66 पर पूर्व स्थिति में उल्लिखित ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम पूर्ण रूप से ग्राम्य विकास विभाग अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 40/2020/सा0- 237/38-2-2020-41बी-2012-टी0सी0 लखनऊ, दिनांक 6 नवम्बर, 2020 के द्वारा विकास खण्ड बिसरख में सम्मिलित कर दी गयी है।	
67	दादरी		शाहपुर खुर्द	1.शाहपुर खुर्द	49	दादरी	शाहपुर खुर्द	1.शाहपुर खुर्द
68	दादरी	गिर्राजपुर	गिर्राजपुर खण्डेरा	1.गिर्राजपुर खण्डेरा 2.मिल्क खण्डेरा	50	दादरी	गिर्राजपुर खण्डेरा	1.गिर्राजपुर खण्डेरा 2.मिल्क खण्डेरा
69	दादरी		नूरपुर	1.नूरपुर	51	दादरी	नूरपुर	1.नूरपुर
70	दादरी		सैथली	1.सैथली	52	दादरी	सैथली	1.सैथली
71	दादरी		बैरगपुर उर्फ नई बस्ती	1.बैरगपुर उर्फ नई बस्ती	53	दादरी	बैरगपुर उर्फ नई बस्ती	1.बैरगपुर उर्फ नई बस्ती
72	दादरी		आनन्दपुर	1.आनन्दपुर	54	दादरी	आनन्दपुर	1.आनन्दपुर
73	दादरी		फूलपुर	1.फूलपुर	55	दादरी	फूलपुर	1.फूलपुर
74	दादरी		नंगला नैनसुख	1.नंगला नैनसुख	56	दादरी	नंगला नैनसुख	1.नंगला नैनसुख
75	दादरी	जारचा	जारचा	1.जारचा	57	दादरी	जारचा	1.जारचा
76	दादरी		कलौन्दा	1.कलौन्दा	58	दादरी	कलौन्दा	1.कलौन्दा
77	दादरी		छौलस	1.छौलस	59	दादरी	छौलस	1.छौलस
78	दादरी		छायसा	1.छायसा 2.दयानगर	60	दादरी	छायसा	1.छायसा 2.दयानगर
79	दादरी	लुहारली	लुहारली	1.लुहारली 2. बंसतपुर(गैर आबाद)	61	दादरी	लुहारली	1.लुहारली 2.बंसतपुर(गैर आबाद)
80	दादरी		कोट	1.कोट	62	दादरी	कोट	1.कोट
81	दादरी		नंगला चमरु	1.नंगला चमरु	63	दादरी	नंगला चमरु	1.नंगला चमरु
82	दादरी		बील अकबरपुर	1.बील अकबरपुर	64	दादरी	बील अकबरपुर	1.बील अकबरपुर
83	बिसरख	छपरौला	गिरधरपुर सुनारसी	1.गिरधरपुर सुनारसी	65	बिसरख	गिरधरपुर सुनारसी	1.गिरधरपुर सुनारसी
84	बिसरख		दुरयाई	1.दुरयाई 2.तालाबपुर उर्फ हाथीपुर	66	बिसरख	दुरयाई	1.दुरयाई 2.तालाबपुर उर्फ हाथीपुर
85	बिसरख		बिशनूली	1.बिशनूली	67	बिसरख	बिशनूली	1.बिशनूली
86	बिसरख	दुजाना	दुजाना	1.दुजाना	68	बिसरख	दुजाना	1.दुजाना
87	बिसरख		बादलपुर	1.बादलपुर	69	बिसरख	बादलपुर	1.बादलपुर

88	बिसरख		कचेडा वारसाबाद	1.कचेडा वारसाबाद	70	बिसरख	कचेडा वारसाबाद	1.कचेडा वारसाबाद
					71	बिसरख	पटादी	1.पटादी
					72	बिसरख	सलारपुर कला	1.सलारपुर कला
					73	बिसरख	रसूलपुर डासना	1.रसूलपुर डासना
					74	बिसरख	ऊँचा अमीरपुर	1.ऊँचा अमीरपुर
					75	बिसरख	ततारपुर	1.ततारपुर
					76	बिसरख	सीदीपुर	1.सीदीपुर
					77	बिसरख	खगौडा	1.खगौडा
					78	बिसरख	सीदीपुर चौना	1.सीदीपुर चौना 2.चक सीदीपुर (गैर आबाद)
					79	बिसरख	बम्बावड	1.बम्बावड
					80	बिसरख	महावड	1.महावड
					81	बिसरख	इस्लामाबाद कल्दा	1.इस्लामाबाद कल्दा
					82	बिसरख	आकलपुर जागीर	1.आकलपुर जागीर
					83	बिसरख	कूडी खेडा	1.कूडी खेडा
					84	बिसरख	शादीपुर छिडौली	1.शादीपुर छिडौली
					85	बिसरख	बिसाहडा	1.बिसाहडा 2.इरादत उर्फ राजतपुर 3.तामोलीपुर (गैर आबाद) 4.नंगला किरानी (गैर आबाद) 5.दादरी देहात
					86	बिसरख	प्यावली ताजपुर	1.प्यावली ताजपुर
					87	बिसरख	जैतवारपुर	1.जैतवारपुर
					88	बिसरख	रानौली लतीफपुर	1.रानौली लतीफपुर 2.गोरखपुर (गैर आबाद)

उपर्युक्तानुसार पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या 4/497/2018-4/83 (गौतम बुद्ध नगर)-2014, दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 उक्त सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

आज्ञा से,
किंजल सिंह,
निदेशक,
पंचायतीराज, उ० प्र०।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 491 राजपत्र-2020-(1038)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 40 सा० पंचायतीराज-2020-(1039)-132 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।